

(3)

Gangadharan Mahavidyamanidin
 Sina Chandra Barty (PTT).
 Department of Philosophy.
 CBS System, Sem - 4
 CC-8. Western Logic (Induction)

এক স্থান উত্তর : — (Marks - 1)

১। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ?

উঃ - কার্য-কারণ ।

২। নিম্নলিখিত মতের কারণ কি ?

উঃ - অর্থাভ্রমের অসঙ্গতি ।

৩। "কারণ হল কারণের অলাভব্য কারণ এবং কারণগুলোর পূর্ববর্তী কারণ" — এটি কার মত ?

উঃ - স্ট্রীটসের মত ।

৪। "অর্থাভ্রম হল কারণের অলাভব্য কারণ" — এটি কার মত ?

উঃ - কার্টেসিয় মত ।

৫। "অর্থাভ্রম হল নিমিত্ত কারণের মত" — বলুন কি মতবাদ ?

উঃ - বৈজ্ঞানিক মত ।

৬। কার্য-কারণের অসঙ্গতি ও অসঙ্গতির প্রমাণে লজিকালিটিক কি মতবাদ ?

উঃ - নিমিত্তের লজিকালিটিক অসঙ্গতির প্রমাণ ।

৭। নিমিত্তের লজিকালিটিক অসঙ্গতির কারণ কী ?

উঃ - অসঙ্গতি ।

৮। অসঙ্গতির প্রমাণের কারণে লজিকালিটিক অসঙ্গতির কারণ হল মতবাদ ?

উঃ - অসঙ্গতি ।

৯। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কারণে মত ?

উঃ - কারণে মত বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রাকৃতিক নিয়মে
 অর্থাভ্রমের কারণে মত বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ।

3। गिबलरः परीक्षण लक्षणितुल्ये ,

4। बुध्या काटक बल ? वैज्ञानिक उ अर्थव्यवस्था बुध्या, सर्वे आर्थिक निर्माण कर ।

5। वैज्ञानिक अनुसंधाने, कसेन ये आर्जि परे अनुसूच 2यः अस्तुनि उद्योग दिने बुध्या कर ।

6। प्रकल्प- काटक बल ? प्रकल्प विषये निश्चित निर्माणकं गि ? उद्योगे आराध्य बुध्या कर ।

7। एकते गोरुका कास्त्रिनी निरुः वैज्ञानिक अनुसंधान काटक आर्जि परे आर्थिक उद्योगे कास्त्रिनी कर्णामा विवेचन कर ।

8। कौटुम्बिक प्रकल्पके गि कृषावृत्तये यार्जि कवा यार्जि ? यथायथा उद्योगे आराध्य आराध्य मर्जि बुध्या उ अर्थव्यवस्था ,

9। निर्माणक परीक्षण की ? निर्माणक परीक्षण गि आर्जि निर्माणक ? बुध्या कर ।

10। अमुतामुता की ? अमुतामुता अस्तुनि विवेचन विधाना बुध्या कर ।

11। अथवा उद्योगे अर्थव्यवस्था बुध्या कर । अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था बुध्या कर ।